

SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED

605, Sixth Floor, Centre Point, Andheri Kurla Road
J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400059

Telephone.: +91-22-49730394

Email: info@saffronadvisor.com

Website: www.saffronadvisor.com

CIN No.: U67120MH2007PTC166711

PHILLIPCAPITAL INDIA PRIVATE LIMITED

18th Floor, Urmi Estate, Ganpatrao Kadam Marg,
Opposite Peninsula Business Park, Lower Parel West,
Mumbai – 400 013, Maharashtra, India.

Telephone: +91 22 2483 1919

E-mail: kavora@phillipcapital.in

Website: www.phillipcapital.in

CIN No.: U92403MH1999PTC123359

March 21, 2024

To,
Manager - Listing Operations
BSE Limited
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Dear Sir / Madam,

Sub.: Proposed Rights Issue of Equity Shares of Affordable Robotic & Automation Limited (the “Company or Issuer”).

ISSUE OF UPTO 10,66,666 EQUITY SHARES* OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH (“RIGHTS EQUITY SHARES”) OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 450/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 440/- PER EQUITY SHARE) (THE “ISSUE PRICE”), AGGREGATING UPTO ₹ 4,800 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF UPTO FORTY SIX (46) RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY FOUR HUNDRED AND THIRTY NINE (439) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON MONDAY, FEBRUARY 12, 2024 (THE “ISSUE”). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 45 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED “TERMS OF THE ISSUE” ON PAGE 180 OF THE LETTER OF OFFER.

With respect to the Issue, this is to confirm that in accordance with the applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (“SEBI ICDR Regulations”), the Company has issued the following public announcement:

Announcement as per Regulation 92(1) of SEBI ICDR Regulations, (the “Post-Issue Advertisement”) dated March 20, 2024 and published on March 21, 2024, giving details relating to subscription, basis of allotment, number, value and percentage of all applications including ASBA, number, value and percentage of successful allottees for all applications including ASBA, date of completion of despatch of refund orders, as applicable, or instructions to self-certified syndicate banks by the Registrar, date of despatch of certificates or date of credit of specified securities, as applicable, and date of filing of listing application, etc.

The Post-Issue Advertisement was published in the following newspapers:

Sr. No	Newspapers	Language	Editions
1	Financial Express	English	All Editions
2	Janasatta	Hindi	All Editions
3	Praja Jagruk	Marathi	Regional

In relation to the aforementioned, please find enclosed copy of the Post-Issue Advertisement dated March 20, 2024 and published on March 21, 2024 in the newspapers as mentioned above.

All capitalised terms used in this letter and not defined shall have the meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

We request you to take the above on record and trust that the same is in order.

Thanking you,

Yours sincerely,

For **Saffron Capital Advisors Private Limited**



Name: Vipin Gupta
Designation: Manager, Equity Capital Markets

For **PhillipCapital (India) Private Limited**



Name: Ghanesh Gandhi
Designation: HOD – Corporate Finance

PM TALKS TO PUTIN, ZELENSKY

Dialogue is way forward: PM Modi

SHUBHAJIT ROY
New Delhi, March 20



In calls to Russia's Putin (left) and Ukraine's Zelenskyy, PM Modi called for dialogue and diplomacy as the way forward

PRIME MINISTER NARENDRA Modi spoke to Russian President Vladimir Putin and Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy on Wednesday, conveying India's consistent position in favour of dialogue and diplomacy as the way forward and that it would continue to do everything within its means to support a peaceful solution to the Russia-Ukraine conflict.

warm and friendly. Vladimir Putin wished Narendra Modi successful parliamentary elections in India," the Kremlin said.

two leaders agreed to remain in touch."

In the phone call to Putin, Modi "congratulated him on his re-election as the President of the Russian Federation and conveyed his best wishes for peace, progress and prosperity of the friendly people of Russia," the ministry of external affairs said in a statement.

Modi, in a post on X, said, "Spoke with President Putin and congratulated him on his re-election as the President of the Russian Federation. We agreed to work together to further deepen and expand India-Russia Special & Privileged Strategic Partnership in the years ahead. @KremlinRussia."

On his discussion with Ukrainian President Zelenskyy, Modi said, "Had a good conversation with President @ZelenskyyUa on strengthening the India-Ukraine partnership. Conveyed India's consistent support for all efforts for peace and bringing an early end to the ongoing conflict. India will continue to provide humanitarian assistance guided by our people-centric approach."

The Kremlin's statement said that "during the extensive telephone call, Narendra Modi congratulated Vladimir Putin on his landslide victory in the Russian presidential election and offered his sincere wishes of prosperity and well-being to the Russian people."

The MEA said that while "discussing the Russia-Ukraine conflict, PM reiterated India's consistent position in favour of dialogue and diplomacy as the way forward. The

MEAsaid that the "two leaders agreed to make concerted efforts towards further strengthening the Special & Privileged Strategic Partnership between the two coun-

tries in the years to come. They also reviewed progress in various issues of bilateral cooperation, and exchanged views on regional and global issues of mutual interest."

The Kremlin, in this context, said, "Both leaders expressed satisfaction with the consistent and dynamic development of mutually beneficial ties in trade, the economy, investment, energy and transport, reflecting the spirit of their special and privileged strategic partnership."

On his discussion with Ukrainian President Zelenskyy, Modi said, "Had a good conversation with President @ZelenskyyUa on strengthening the India-Ukraine partnership. Conveyed India's consistent support for all efforts for peace and bringing an early end to the ongoing conflict. India will continue to provide humanitarian assistance guided by our people-centric approach."

The MEA said, "While discussing the ongoing Russia-Ukraine conflict, the PM reiterated India's people-centric

approach and called for dialogue and diplomacy as the way forward. He highlighted that India supports all efforts for an early and peaceful resolution of all issues between the parties. He added that India would continue to do everything within its means to support a peaceful solution. President Zelenskyy appreciated India's continued humanitarian assistance for the people of Ukraine."

It said the two leaders discussed ways to further strengthen India-Ukraine partnership in various spheres. The two leaders agreed to remain in touch, it said.

It is learnt that the plans are afoot to schedule a visit by Ukraine's Foreign Minister Dmitry Kuleba next week. This will be his first visit since the Russia-Ukraine war broke out in February 2022.

Modi has spoken to Putin and Zelenskyy in the past — with the Russian President, he has had at least five phone calls and with the Ukraine President there have been at least two phone calls since the Russian invasion of Ukraine.

EC selection: Centre defends move to drop CJJ from panel

ANANTHAKRISHNAN G
New Delhi, March 20

THE CENTRE ON Wednesday defended the selection of the two new election commissioners by a committee that excluded the Chief Justice of India, saying the independence of the Election Commission "does not arise from" the presence of a judicial member in the selection committee. "To indicate...that selection committees without judicial members would invariably be biased is wholly incorrect," it said.

Prime Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha, and a Union Cabinet Minister, the ministry said: "The independence of the EC, or any other organisation or authority, does not arise from, and is not attributable to, the presence of a judicial member in the selection committee... Equally, the presence of senior government functionaries on the selection committee cannot in, and of, itself be a ground to automatically assume bias on behalf of the committee."

Responding to the SC's notice on a plea filed by the Association for Democratic Reforms (ADR) which challenged the appointments, the Ministry of Law and Justice, in an affidavit on Wednesday, also denied that the meeting of the selection committee was advanced to pre-empt a hearing in the Supreme Court the next day.

On the NGO's claim that the selection committee meeting was preponed to March 14, to "pre-empt" the SC's order the next day, when the matters challenging the 2023 law were listed for hearing on interim relief, the government said the meeting had been rescheduled on March 9 itself in view of Arun Goel's resignation. There was "no attempt whatsoever to pre-empt the judicial process in any manner whatsoever," it said.

Supporting The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Terms of Office) Act, 2023, which provides for a selection committee comprising the

committee of Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and Leader of Congress in Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury. Chowdhury had recorded his dissent, saying he got the names of six shortlisted officers only minutes before the meeting. Raising this in its plea, ADR said this reflected "premeditation on the minds of the two members of the Executive with regard to the names of those who would be appointed to the post." In its affidavit, the government said Chowdhury was handed a list of candidates under consideration on March 13, but the shortlist could not be provided as the search committee had not completed its process.

The search committee shortlisted the names only on March 14, after which it was provided to the selection committee, it said. "The procedure prescribed by law has been fully followed. The list of shortlisted persons was made available to the leader of the single largest party in Opposition as soon as practicable, after the search committee finalised six names," it said.

Pune office space market to cross 100 mn sq ft



GEETA NAIR
Pune, March 20

Pune will be a 100 million sq ft office space market in around two years, Anshuman Magazine, chairman and CEO-India, South-East Asia, Middle East & Africa, CBRE, said. The office space in the city is currently at 84 million sq ft. This is large for a city of Pune's size, Magazine said. Office space in Pune was higher than in many global cities, he added.

According to real estate consulting firm, CBRE South Asia, office leasing in Pune is projected to touch almost seven million sq ft, the highest in the last six years and a year-on-year growth of 13%. Pune is currently the sixth-largest office market in India.

The availability of land banks was driving this growth, enabling the development of expansive office campuses and providing a diverse selection of high-quality assets at competitive rates. This combination is proving highly attractive to businesses seeking expansion or relocation opportunities, he said.

Samsung to focus on premium phone market

AMID THE PREMIUMISATION trends in the mobile phones market, Samsung India is focussing on strengthening its leadership in the premium range of smartphones (usually defined between the price range of ₹25,000 to ₹45,000). In order to materialise this target, Samsung is providing the flagship features (from phones like Galaxy S and Galaxy Z series) in this price range of mobile phones.

Hirendra Kumar Rathod, senior director, MX Business, Samsung India, said, "In the last two years, Samsung's Galaxy A series has emerged as the largest selling series across the mobile phone industry. According to the industry reports, Samsung is the clear leader in the premium segment of the mobile market. This segment is the fastest growing segment. Our newly launched phones Samsung A35 and Samsung A55 fall in this segment only." The newly launched Samsung Galaxy A35 and A55 range between ₹27,999 to ₹42,999 for various variants. According to industry reports Samsung India captures 18% of the market share for the phones in the premium range.



HDFC MUTUAL FUND
BHAROSA APNO KA

HDFC Asset Management Company Limited
CIN: L65991MH1999PLC123027

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676
e-mail: hello@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, Trustee to HDFC Mutual Fund ("the Fund") has approved the following Distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Options in the below-mentioned Scheme(s) / Plan(s) / Option(s) of the Fund and fixed **Tuesday, March 26, 2024** (or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same as given below:

Name of the Scheme(s) / Plan(s) / Option(s)	Net Asset Value ("NAV") as on March 19, 2024 (₹ per unit)	Amount of Distribution (₹ per unit)
Plan(s) launched under HDFC Fixed Maturity Plans - Series 46:		
HDFC FMP 1861D March 2022 - Regular Option - Quarterly IDCW Option	10.1920	0.1920
HDFC FMP 1861D March 2022 - Direct Option - Quarterly IDCW Option	10.1964	0.1964
HDFC FMP 1162D March 2022 - Regular Option - Quarterly IDCW Option	10.1860	0.1860
HDFC FMP 1162D March 2022 - Direct Option - Quarterly IDCW Option	10.1898	0.1898
HDFC FMP 1876D March 2022 - Regular Option - Quarterly IDCW Option	10.1851	0.1851
HDFC FMP 1876D March 2022 - Direct Option - Quarterly IDCW Option	10.1889	0.1889
HDFC FMP 1158D July 2022 - Regular Option - Quarterly IDCW Option	10.1775	0.1775
HDFC FMP 1158D July 2022 - Direct Option - Quarterly IDCW Option	10.1835	0.1835
HDFC FMP 1406D August 2022 - Regular Option - Quarterly IDCW Option	10.1881	0.1881
HDFC FMP 1406D August 2022 - Direct Option - Quarterly IDCW Option	10.1942	0.1942
HDFC FMP 1359D September 2022 - Regular Option - Quarterly IDCW Option	10.1649	0.1649
HDFC FMP 1359D September 2022 - Direct Option - Quarterly IDCW Option	10.1714	0.1714
Plan(s) launched under HDFC Fixed Maturity Plans - Series 47:		
HDFC FMP 1204D December 2022 - Regular Option - Quarterly IDCW Option	10.2980	0.1396
HDFC FMP 1204D December 2022 - Direct Option - Quarterly IDCW Option	10.3044	0.1459
HDFC FMP 2638D February 2023 - Regular Option - Quarterly IDCW Option	10.2294	0.2073
HDFC FMP 2638D February 2023 - Direct Option - Quarterly IDCW Option	10.2358	0.2137
HDFC FMP 1269D March 2023 - Regular Option - Quarterly IDCW Option	10.1665	0.1665
HDFC FMP 1269D March 2023 - Direct Option - Quarterly IDCW Option	10.1729	0.1729

Face Value per unit of all the above Scheme(s) / Plan(s) / Option(s) is ₹ 10/-.

Pursuant to the Distribution, the NAV of the IDCW Option(s) of the above Scheme(s) would fall to the extent of such distribution and statutory levy, if any.

Amount will be paid, net of applicable tax deducted at source (TDS), to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Fund / Statements of Beneficial Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the IDCW Option(s) of the aforesaid Scheme(s) on the Record Date.

As mandated under SEBI (Mutual Funds) Regulations and Master circular dated May 19, 2023, for redemptions and IDCW declared, payout will be done only through electronic mode(s), even where a Unit holder has opted to receive physical instruments. Thus, payment of such amounts shall be made through physical instruments, only in exceptional circumstances for reasons to be recorded by the AMC. Accordingly, unit holders who have opted for / have earlier received physical instruments are requested to update their bank account details by / sending us a copy of a cancelled cheque of first / sole holder's bank account.

All updations of PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details, etc. should immediately be forwarded to the Investor Services Centers of the Fund (for units held in non-demat form) / Depository Participant (for units held in demat form). Unit holders are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Fund as well as check for any unclaimed redemptions or IDCW payments.


In view of individual nature of tax consequences, each investor should seek appropriate advice.

For (HDFC Asset Management Company Limited)
(Investment Manager to HDFC Mutual Fund)

Place : Mumbai Sd/
Date : March 20, 2024 Authorized Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

This is only an advertisement for information purpose and not an offer document announcement. Not for publication, distribution or release directly or indirectly into the United States of America or otherwise outside India. All capitalized terms used and not defined herewith shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated February 12, 2024 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchange, namely BSE Limited ("BSE") ("Stock Exchange") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



AFFORDABLE ROBOTIC & AUTOMATION LIMITED

Affordable Robotic & Automation Limited ("Company" or "Issuer") was incorporated on January 12, 2010 as 'Affordable Robotic & Automation Private Limited', a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated January 12, 2010 issued by the Registrar of Companies, Pune, Maharashtra. Further, our Company was converted into a public limited company pursuant to a resolution passed by the Shareholders at an EGM held on January 24, 2018 and consequently the name of our Company was changed to 'Affordable Robotic & Automation Limited' and a fresh certificate of incorporation dated February 2, 2018 was issued by the Registrar of Companies, Pune, Maharashtra.

Registered Office: Village Wadki, Gat No.1209, Taluka Haveli, Dist. Pune - 412 308, Maharashtra, India | **Tel:** +91 772 001 8914 | **Facsimile:** N.A.
E-mail: info@arapl.co.in | **Website:** www.arapl.co.in | **Contact Person:** Ruchika Jitendrakumar Shinde, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MILIND MANOHAR PAOLE AND MANOHAR PANDURANG PAOLE

ISSUE OF UPTO 10,66,666 EQUITY SHARES* OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹450/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹440/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹4,80,00,000* ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF UPTO FORTY SIX (46) RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY FOUR HUNDRED AND THIRTY NINE (439) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON MONDAY, FEBRUARY 12, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 45 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 180 OF THE LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription. Subject to finalisation of the Basis of Allotment.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Affordable Robotic & Automation Limited wishes to thank all its Equity Shareholders, members and investors for the response to the Company's Rights Issue of Equity Shares which opened for subscription on Monday, February 26, 2024 and closed on Thursday, March 07, 2024 and the last date for on-market renunciation of Rights Entitlements was Friday, March 01, 2024. Out of the total 1,159 Applications for 13,91,740 Equity Shares through the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA"), 505 Applications for 32,132 Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the LOF. There are 5 cases where applicants have renounced part of their entitlements but applied for 1,720 additional rights equity shares. In accordance with LOF, additional shares applied by these applicants were not considered additional rights equity shares for allotment. The total number of valid applications received were 657 for 13,59,608 Equity Shares, which aggregates to 130.47% of the total number of Equity Shares allotted under the Issue. In accordance with the LOF and the basis of allotment finalized on March 14, 2024 in consultation with the Lead Managers, the Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue, the Company has on March 15, 2024 allotted 10,66,666 Equity Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications have been duly considered for Allotment.

*In accordance with Regulation 86 of SEBI ICDR Regulations, our Company is required to achieve minimum subscription for the Rights Issue.

1. Information regarding total number of Applications received:

Category	Total number of Applications received		Equity Shares applied for			Equity Shares allotted		
	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Eligible Equity Shareholders	606	52.29	5,35,940	24,11,73,000	38.51	5,06,994	22,81,47,300	47.53
Renounees	553	47.71	8,55,800	3,85,11,000	61.49	5,59,672	25,18,52,400	52.47
Total	1,159	100.00	13,91,740	62,62,83,000	100.00	10,66,666	47,99,99,700	100.00

2. Basis of Allotment:

Category	Number of valid Application received and considered for allotment	Number of Equity Shares accepted and allotted against Rights Entitlements (A)	Number of Equity Shares accepted and allotted against additional Shares applied for (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)
Eligible Equity Shareholders	585	3,21,857	1,85,137	5,06,994
Renounees	72	5,59,672	0	5,59,672
Total	657	8,81,529	1,85,137	10,66,666

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT / REFUND / REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and question for rejection, as applicable, to the investors has been completed on March 19, 2024. The instructions to Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on March 14, 2024. The Listing application was filed with BSE on Friday, March 15, 2024 and subsequently the listing approval was received on Monday, March 18, 2024. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of allottees has been completed on March 19, 2024. No physical shares were rendered in the Rights Issue. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Rights Equity Shares Allotted in the issue is expected to commence trading on BSE on or about March 22, 2024 and shall be traded under the same ISIN INE692201013 as the existing Equity Shares, in accordance with the SEBI circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of rights entitlement is expected to be completed on or about March 19, 2024.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALIZED FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" on page 174 of the Letter of Offer.

LEAD MANAGERS TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
SAFFRON ***** emerging ideas SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 605, Center Point, 6th floor, Andheri Kuria Road, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 059, Maharashtra, India. Telephone: +91 22 4973 0394 Facsimile: NA E-mail: rights.issue@saffronadvisor.com Website: www.saffronadvisor.com Investor grievance: investorgrievance@saffronadvisor.com Contact Person: Vipin Gupta, Saurabh Gaikwad SEBI Registration Number: INM 00011211 Validity of Registration: Permanent	PHILLIPCAPITAL Your Partner in Finance PHILLIPCAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED 18th Floor, Urmil Estate, Ganpatrao Kadam Marg, Opposite Peninsula Business Park, Lower Parel West, Mumbai - 400 013, Maharashtra, India. Telephone: +91 22 2483 1919 Facsimile: NA E-mail: kavora@phillipcapital.in Website: www.phillipcapital.in Investor grievance: mbcustomeraffairs@phillipcapital.in Contact Person: Kavita Vora SEBI Registration Number: INM000012458 Validity of Registration: Permanent
ARAPL AFFORDABLE ROBOTIC & AUTOMATION LIMITED Registered Office: Village Wadki, Gat No.1209, Taluka Haveli, Dist. Pune - 412 308, Maharashtra, India. Tel: +91 772 001 8914 Facsimile: N.A. E-mail: info@arapl.co.in Website: www.arapl.co.in Contact Person: Ruchika Jitendrakumar Shinde, Company Secretary and Compliance Officer Corporate Identification Number: L29299PN2010PLC135298	CAMEO CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED Subramanian Building, No. 01, Club House Road, Chennai- 600 002, Tamil Nadu, India. Telephone: +91 44 4002 0700 / 2846 0390 Email: rights@cameoindia.com Website: www.cameoindia.com Investor grievance e-mail: https://wisdom.cameoindia.com Contact Person: K. Sreepriya SEBI Registration No.: INR000003753 Validity of Registration: Permanent

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre issue or post issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSBs, giving full details such as name, address of the Applicant contact numbers, e-mail address of the sole/first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper applications as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgment slip.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For AFFORDABLE ROBOTIC & AUTOMATION LIMITED
Sd/-
Ruchika Jitendrakumar Shinde
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Pune
Date: March 20, 2024

The LOF is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, the Lead Managers at www.saffronadvisor.com, www.phillipcapital.in and the website of the Registrar to the Issue at www.cameoindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 22 of the "LOF".

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been, and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered directly or indirectly within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons (as defined in Regulations except for these purposes. U.S. Persons include persons who would otherwise have been excluded from our term solely by virtue of Rule 902(K)(1)(VIII)(B) or Rule 902(K)(2)(i), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlements and Rights Equity Shares were offered and sold (i) in offshore transactions outside the United States to non-U.S. Persons compliance with Regulations to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions; and (ii) in the United States to U.S. Persons who are U.S. QIBs and are also Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the US Securities Act and the Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Equity Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions.

AdBaz

महत्वाच्या बातम्या

उन्हाच्या झळा वाढणार ; जाणून घ्या, तापमानात किती वाढ होणार

पुणे : विदर्भासह राज्याच्या अन्य भागांत असलेले ढगाळ वातावरण निवळले आहे. पुढील चार-पाच दिवस राज्यात हवामान कोरडे राहून उन्हाच्या झळा वाढण्याचा अंदाज आहे. किमान तापमानात किरकोळ, तर कमाल तापमानात सरासरी दोन ते तीन अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, एक कमी दाबाची रेषा इशान्य उत्तर प्रदेशापासून पूर्व विदर्भापर्यंत आहे. एक पश्चिमी थंड वाऱ्याचा झंझावात देशाच्या पश्चिम सीमेवर सक्रिय आहे. थंड वाऱ्याच्या झंझावाताचा राज्यावर परिणाम होण्याची शक्यता नाही. विदर्भात असलेले ढगाळ हवामान निवळले असून, विदर्भासह पुढील चार-पाच दिवस राज्यात हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे. बुधवारी राज्यात सर्वाधिक ३९ अंश सेल्सिअसची नोंद सोलापात्र झाली आहे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मध्य महाराष्ट्रात सरासरी कमाल तापमान ३६ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान होते. विदर्भात अजकली पाऊस आणि ढगाळ हवामानामुळे सरासरी कमाल तापमान ३४ अंश सेल्सिअसवर होते. किनारपट्टीवर सरासरी कमाल तापमान ३५ अंशावर होते. सांताक्रुज येथे ३८.७ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली आहे.



दिव्यांग कल्याणासाठी प्रयत्नशील : प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी

‘हाक दिव्यांगांची साथ लायन्सची’ उपक्रमांतर्गत लायन्स क्लबतर्फे दिव्यांगांना २६ व्हीलचेअसंचे वाटप

पुणे : सामाजिक जबाबदारीच्या भावनेतून दिव्यांगांसाठी लायन्स क्लबकडून सुरु असलेले कार्य कौतुकार्ह आहे. दिव्यांगांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. दिव्यांगांसाठीच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्यापासून ते त्यांच्या कल्याणासाठी माझा कायम पुढाकार राहिल, असे प्रतिपादन लायन्स क्लब खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी केले. दिव्यांगांसाठी एकाच छताखाली सर्व गोष्टी उपलब्ध करून देण्यासाठी लायन्स क्लबने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.



लायन्स क्लब इंटरनॅशनल ३२४ डी-२ च्या वतीने आयोजित ‘हाक दिव्यांगांची, साथ लायन्सची’ उपक्रमांतर्गत २६ दिव्यांगांना व्हीलचेअरचे वाटप प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांच्या हस्ते करण्यात आले. एरंडवणे येथील सेवासदन शाळेच्या सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमात माजी प्रांतपाल रमेश

शहा, दीपक शहा, ‘सेवासदन’चे सचिद्वर्णीस चिंतामणी पटवर्धन, दिव्यांग विभाग प्रमुख सीमा दाबके, दीपक लोया, आनंद आंबेकर, सुरेश मेहता, राजीव निगाडीकर, सुवर्णा दोषी, दिपिका खिबसरा, राजश्री शहा, राणी अहलुवालिया, सुहास दाबके, ज्योती भंडारी यांच्यासह लायन्स क्लबचे सभासद, दिव्यांग विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सचिन नहार यांच्याकडून एक व्हीलचेअर भेट देण्यात आली.

दिव्यांगांसाठी लायन्स क्लबच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवत असतो. अनेकांचे या उपक्रमात सहकार्य मिळत आहे. दिव्यांगांना दैनंदिन जीवन जगताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्याचे कार्य समाधान देऊन जाते, अशी कृतज्ञ भावना रमेश शहा यांनी व्यक्त केली. दीपक शहा म्हणाले, दिव्यांगांना सर्व सोयीची युक्त असे ‘लायन्स मेडिकल भवन’ उभारण्याचा आमचा मानस आहे. या मेडिकल भवनमध्ये

अनुभूती संगीत सभा २३ व २४ तारखेला

पुणेकरांना घेता येणार एकल तबलावादानाचा आस्वाद

पुणे : संगीत साधना गुरुकुल आश्रम संस्थेतर्फे ‘अनुभूती संगीत सभा’ या एकल तबलावादानाच्या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन २३ व २४ तारखेला एरंडवणे येथील कर्नाटक हायस्कूलमधील शकुंतला जगन्नाथ शेठ्ठी सभागृहात शनिवारी सायंकाळी सहा वाजता व रविवारी सकाळी १० वाजता केले आहे. सर्वांसाठी नि:शुल्क आयोजित या कार्यक्रमास प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. अशी माहिती संस्थेचे संचालक अनुप

जोशी यांनी दिली.

या दोन दिवसांत एकल तबलावादानाच्या कार्यक्रमात तबलावादी बाकावे जाणून घेता येतील. अनुप जोशी व प्रजा देव यांनी ही संस्था स्थापन केली आहे. शनिवारी (ता. २३) कार्यक्रमाची सुरुवात अनुप जोशी यांचे शिष्य अनुराग अलुकर यांच्या एकल तबला वादाने होईल. यानंतर प्रसिद्ध तबलावादक ओजस अद्विया यांच्या एकल तबला वादाने पहिल्या दिवसाचा समारोप होणार आहे.

२४ तारखेला फारूखाबाद घराण्याचे वादक अनुव्रत चॅटर्जी यांच्या एकल तबला वादाने कार्यक्रमाची सुरुवात होईल. त्यांचे गुरु जगप्रसिद्ध तबलावादक अनिंदो चॅटर्जी यांच्याकडून तबलावादानाचे धडे घेतले आहे. यानंतर प्रसिद्ध युवा कलाकार यशवंत वैष्णव यांच्या तबला वादाने कार्यक्रमाची सांगता होईल. यशवंत वैष्णव सध्या सुप्रसिद्ध तबलावादक पंडित योगेश समी यांच्याकडून तबलावादानाचे धडे गिरवीत आहे.

पान १ वरून...

अनंतराव थोपटेंच्या विधानाने शरद पवार..

एका बाजूला नणंद आणि एका बाजूला भावजय... अशावेळी साडेपाच लोकांनी जायचे कुटे? असा सवाल उपस्थित करत लोकांना पवारविरोधी मरदान करायला माझ्या रुपाने संधी मिळाले, असे शिवतारे यांनी थोपटें यांना सांगितले तसेच निवडणुकीत आशीवाद मागितला.

‘वंचित’-मविआची बोलणी फिसकटली

पविपदला ‘वंचित’ आपला प्रतिनिधी पाठवेल. उद्याच्या बैठकीला अॅड. आंबेडकर उपस्थित राहणार नाहीत. अॅड. आंबेडकर उद्या बैठकीऐवजी अकोल्यात कार्यकर्त्यांच्या गाठीभेटी घेतील, असे ‘वंचित’कडून सांगण्यात आले. त्यामुळे उद्या महाविकास आघाडीच्या बैठकीत काय घडणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. महाविकास आघाडीतील त्यांच्यासह चारही पक्षांनी प्रत्येकी १२ जागा लढवाव्यात, हा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानंतर त्यांच्या जागांचा प्रस्तावाचे आकडे वेळोवेळी बदलत गेले. कधी ते १३ झाले, तर कधी ९ झाले; परंतु महाविकास आघाडीकडून ‘वंचित’ला चार जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.

मराठा आरक्षणसाठी युवकाची आत्महत्या

गजानन हा मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलनात सक्रिय सहभागी असल्याने समाजाला आरक्षण मिळाले यासाठी प्रयत्न करत असे. यातच राज्य शासनाकडून सगळ्यांचे कायद्याची अंमलबजावणी तातडीने होत नसल्याने वैराग्य आलेल्या गजाननने आपण स्वतःचे जीवन संपवत असल्याचे हाता-पायावर लिहून शेतातील आंब्याच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

भाजपला जनताच निवडणुकीत कापेल

सिद्धखेडराजामधील सभेमध्येही ठाकरे यांनी भाजपवर तोफ डागली. ते म्हणाले, की मला तुम्ही कुटुंबप्रमुख मानले. मी सांगितलेले ऐकले, म्हणून कोरोना काळात आपण वाचू शकलो. आताही सांगतो भाजपच्या भूलथापांच्या नादी लागू नका. हनुमंताला आजच गाडून टाका. मी तुम्हाला तळमळीने सांगतो. या वेळी चूक करू नका. गद्दारीला मते देऊ नका, समोर हनुमंताची संकट आहे. दुसऱ्या धर्माचा आहे म्हणून त्याला मार हे शिवसेनेप्रमुखाने आम्हाला कधीच शकवले नाही. आमचे हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे.

युगेंद्र पवार यांना अजित पवार गटाने..

याच्यासंबंधी श्रीनिवास पवार यांनी नुकतीच काही मते व्यक्त केली होती. त्या व्हिडीओचा आधार घेत तो ‘सोशल मीडिया’वर फिरवला जात आहे. त्यात काही ठराविक वाक्यांची रिलस बनवून तीच वारंवार ऐकवली जात आहेत, अशी तक्रार करून ‘सोशल मीडिया’चे काम बघणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आवर घाला, अशी मागणी अजित पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांनी युगेंद्र यांच्याकडे केली. आम्ही पवार कुटुंबावर कायम प्रेम करत आलो आहोत; परंतु अजित पवार यांच्याबद्दल श्रीनिवास पवार

विज्ञान प्रदर्शनातून विसली विद्यार्थ्यांची प्रतिभा

‘मेक इन एमआयटी डब्ल्यूपीयू पॅव्हेलियनचे’ उद्घाटन : ४० विज्ञान आधारित प्रकल्प सादर

पुणे : ‘विज्ञान हे एकमेव माध्यम आहे जे आपल्याला दरोज नवनवीन शोधांसाठी प्रेरित करते. विज्ञान आपल्या जीवनातील नावीन्य राखते. आज आपल्याला अशा नवीन शोधांची नितांत गरज आहे. जे आपल्या गरजा कमीत कमी किंवा पर्यावरणाची कोणतीही हानी न करता पूर्ण करतात.’ असे मत ‘एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी’चे संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डॉ. विश्वनाथ कराड यांनी व्यक्त केले.

‘एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी’ तर्फे आयोजित ‘मेक इन एमआयटी डब्ल्यूपीयू पॅव्हेलियनचे’ उद्घाटन प्रा.डॉ. कराड यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी ‘एमआयटी डब्ल्यूपीयू’चे कुलगुरू डॉ. आर.एफ. चिर्गीस व ‘हॅक एमआयटी डब्ल्यूपीयू’चे मुख्य संयोजक व प्र



पुणे : विज्ञान प्रदर्शनाची पाहणी करताना ‘एमआयटी’चे संस्थापक डॉ. विश्वनाथ कराड.

कुलगुरू प्रा.डॉ. मिलिंद पाडे उपस्थित होते. ‘एमआयटी डब्ल्यूपीयू’चे कार्याध्यक्ष राहुल कराड यांच्या

संकल्पनेवर हा कार्यक्रम आधारित आहे. इनोव्हेशन, इन्व्हेस्टमेंट आणि इन एमआयटी डब्ल्यूपीयू पॅव्हेलियन’ मध्ये ‘एमआयटी डब्ल्यूपीयू’च्या

विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले ४० विज्ञान आधारित प्रकल्प होते. विद्यार्थ्यांना स्वतःची कल्पना साकार करून त्याला मूर्तरूप देणे. आत्मनिर्भर भारत आणि स्टार्टअप इंडिया संस्कृती वाढविण्यासाठी याची मदत होणार आहे. या विज्ञान प्रदर्शनात वेधशाळेच्या गुंतागुंतीपासून ते रोबोटच्या अचूकतेपर्यंत, ‘हायपरलूप प्रोटोटाइप’च्या भविष्यवादी दृष्टिकोन ते सौर इलेक्ट्रिक वाहनाद्वारे ऑफर केलेल्या शाश्वत उपायंचे प्रदर्शन मांडण्यात आले आहे. इतर उल्लेखनीय प्रदर्शनांमध्ये इलेक्ट्रिक फॉर्म्युला स्टूडेंट कार, फिक्स्ड विंग यूएव्ही, हॅक्सॉफर, टेलीक्यू, व्होलेट्टिक, एमबाज ऑल टेंडेन व्हेईकल, इबाज इलेक्ट्रिक ऑल टेंडेन व्हेईकल आणि इलेक्ट्रिक गो कार्ट यांचा समावेश होता. त्याच प्रमाणे १९ वर्षाखालील

विद्यार्थ्यांनी आत्मनिर्भर भारत या थीममध्ये रक्षा कवचसारखा प्रकल्प सादर केला.

डॉ. पांडे म्हणाले, ‘माइंड टू मार्केट आणि पेपर टू प्रॉडक्ट ही संकल्पना विद्यार्थ्यांमध्ये रूजविण्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. विद्यार्थ्यांच्या कल्पनांना वाव देऊन त्यांना चालना द्यावी व त्यांची बौद्धिक क्षमता वृद्धित करून त्यांना उद्योजक बनविण्याचे धोरण प्रत्यक्षात आणण्याच्या हा एक स्तुत्य प्रयत्न आहे. सामाजिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ‘मेक इन एमआयटी डब्ल्यूपीयू पॅव्हेलियनचे’ आयोजन करण्यात येते. विद्यार्थ्यांना स्वतःची कल्पना साकार करून त्याला मूर्तरूप द्यावयाचे आहे. आत्मनिर्भर भारत आणि ‘स्टार्टअप इंडिया’ संस्कृती वाढविण्यासाठी याची मदत होणार आहे.’

सहकार आयुक्त सौरभ राव यांचा जाता-जाता लेखापरीक्षकाला दणका

पुणे : राज्य सरकारने सहकार आयुक्त सौरभ राव यांची ठाणे महापालिका आयुक्तपदी बदली केली. सहकार आयुक्त पदाचा कार्यभार सोडताना राव यांनी पुण्यातील एका सोसायटीचे बेकायदा लेखापरीक्ष केल्याप्रकरणी एका लेखापरीक्षकाला दणका दिला आहे. गेल्या वर्षभरापासून ही तक्रार

सहकार आयुक्तांकडे प्रलंबित होती. मात्र, राव यांच्या आधीच्या सहकार आयुक्तांनी याबाबत निर्णय घेतला नव्हता. वाघोली येथील सिटॉन सहकारी गृहचला संस्थेचे वैशाली भट्ट प्रमाणित लेखापरीक्षक यांनी सन २०१८-१९ ते सन २०२१-२२ या सलग

पाच वर्षांच्या कालावधीचे लेखापरीक्षण पूर्ण केले त्यांनी कायद्यातील तरतुदींचे पालन केले नाही. तसेच सोसायटीने सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांच्या लेखापरीक्षणासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत नियुक्ती केली नसताना सन २०१७-१८ चे लेखापरीक्षण पूर्ण केले आहे.

This is only an advertisement for information purpose and not an offer document announcement. Not for publication, distribution or release directly or indirectly into the United States of America or otherwise outside India. All capitalized terms used and not defined herewith shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated February 12, 2024 (the ‘Letter of Offer’ or ‘LOF’) filed with the Stock Exchange, namely BSE Limited (‘BSE’) (‘Stock Exchange’) and the Securities and Exchange Board of India (‘SEBI’).



AFFORDABLE ROBOTIC & AUTOMATION LIMITED

Affordable Robotic & Automation Limited (‘Company’ or ‘Issuer’) was incorporated on January 12, 2010 as ‘Affordable Robotic & Automation Private Limited’, a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated January 12, 2010 issued by the Registrar of Companies, Pune, Maharashtra. Further, our Company was converted into a public limited company pursuant to a resolution passed by the Shareholders at an EGM held on January 24, 2018 and consequently the name of our Company was changed to ‘Affordable Robotic & Automation Limited’ and a fresh certificate of incorporation dated February 2, 2018 was issued by the Registrar of Companies, Pune, Maharashtra.

Registered Office: Village Wadki, Gat No.1209, Taluka Haveli, Dist. Pune – 412 308, Maharashtra, India | Tel: +91 772 001 8914 | Facsimile: N.A. E-mail: info@arapl.co.in | Website: www.arapl.co.in | Contact Person: Ruchika Jitendrakumar Shinde, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MILIND MANOHAR PADOLE AND MANOHAR PANDURANG PADOLE

ISSUE OF UPTO 10,66,666 EQUITY SHARES* OF FACE VALUE OF ₹10 EACH (‘RIGHTS EQUITY SHARES’) OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹450/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹440/- PER EQUITY SHARE) (THE ‘ISSUE PRICE’), AGGREGATING UPTO ₹4,800 LAKHS* ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF UPTO FORTY SIX (46) RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY FOUR HUNDRED AND THIRTY NINE (439) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON MONDAY, FEBRUARY 12, 2024 (THE ‘ISSUE’). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 45 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED ‘TERMS OF THE ISSUE’ ON PAGE 180 OF THE LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription. Subject to finalisation of the Basis of Allotment.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Affordable Robotic & Automation Limited wishes to thank all its Equity Shareholders, members and investors for the response to the Company’s Rights Issue of Equity Shares which opened for subscription on Monday, February 26, 2024 and closed on Thursday, March 07, 2024 and the last date for an on-market renunciation of Rights Entitlements was Friday, March 01, 2024. Out of the total 1,159 Applications for 13,91,740 Equity Shares through the Application Supported by Blocked Amount (‘ASBA’), 505 Applications for 32,132 Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the LOF. There are 5 cases where applicants have renounced part of their entitlements but applied for 1,720 additional rights equity shares. In accordance with LOF, additional shares applied by these applicants were not considered additional rights equity shares for allotment. The total number of valid applications received were 657 for 13,59,608 Equity Shares, which aggregates to 130.47%* of the total number of Equity Shares allotted under the Issue. In accordance with the LOF and the basis of allotment finalized on March 14, 2024 in consultation with the Lead Managers, the Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue, the Company has on March 15, 2024 allotted 10,66,666 Equity Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications have been duly considered for Allotment.

*In accordance with Regulation 86 of SEBI ICDR Regulations, our Company is required to achieve minimum subscription for the Rights Issue.

1. Information regarding total number of Applications received:

Category	Total number of Applications received		Equity Shares applied for		Equity Shares allotted	
	Number	%	Number	Value (₹)	Number	Value (₹)
Eligible Equity Shareholders	606	52.29	5,35,940	24,11,73,000	38,51	5,06,994
Renounees	553	47.71	8,55,800	3,85,11,000	61.49	5,59,672
Total	1,159	100.00	13,91,740	62,62,83,000	100.00	10,66,666

2. Basis of Allotment:

Category	Number of valid Application received and considered for allotment	Number of Equity Shares accepted and allotted against Rights Entitlements (A)	Number of Equity Shares accepted and allotted against additional Equity Shares applied for (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)
Eligible Equity Shareholders	585	3,21,857	1,85,137	5,06,994
Renounees	72	5,59,672	0	5,59,672
Total	657	8,81,529	1,85,137	10,66,666

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT / REFUND / REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and question for rejection, as applicable, to the Investors has been completed on March 19, 2024. The instructions to Self-Certified Syndicate Banks (‘SCSBs’) for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on March 14, 2024. The Listing application was filed with BSE on Friday, March 15, 2024 and subsequently the listing approval was received on Monday, March 18, 2024. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of allottees has been completed on March 19, 2024. No physical shares were rendered in the Rights Issue. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Rights Equity Shares Allotted in the issue is expected to commence trading on BSE on or about March 22, 2024 and shall be traded under the same ISIN INE69201013 as the existing Equity Shares. In accordance with the SEBI circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of rights entitlement is expected to be completed on or about March 19, 2024.

INVESTORS PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALIZED FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the ‘Disclaimer Clause of BSE’ on page 174 of the Letter of Offer.

LEAD MANAGERS TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
<p>SAFFRON ***** energising ideas</p> <p>SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 605, Center Point, 6th floor, Andheri Kuria Road, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 059, Maharashtra, India. Telephone: +91 22 4973 0394 Facsimile: NA E-mail: rights.issue@saffronadvisor.com Website: www.saffronadvisor.com Investor grievance: investor grievance@saffronadvisor.com Contact Person: Vipin Gupta/ Saurabh Gaikwad SEBI Registration Number: INN00001211 Validity of Registration: Permanent</p>	<p>PHILLIPCAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED 18th Floor, Urmi Estate, Ganpatrao Kadam Marg, Opposite Peninsula Business Park, Lower Parel West, Mumbai - 400 013, Maharashtra, India. Telephone: +91 22 2483 1919 Facsimile: NA E-mail: kavora@phillipcapi.in Website: www.phillipcapi.in Investor grievance: mbcustomeraffairs@phillipcapi.in Contact Person: Kavita Vora SEBI Registration Number: INN000012458 Validity of Registration: Permanent</p>
<p>CAMEO CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED Subramanian Building, No. 01, Club House Road, Chennai- 600 002, Tamil Nadu, India. Telephone: +91 44 4002 0700 / 2846 0390 Email: rights@cameoindia.com Website: www.cameoindia.com Investor grievance e-mail: https://wisdom.cameoindia.com Contact Person: K. Sreepriya SEBI Registration No.: INN000003753 Validity of Registration: Permanent</p>	

AFFORDABLE ROBOTIC & AUTOMATION LIMITED

Registered Office: Village Wadki, Gat No.1209, Taluka Haveli, Dist. Pune – 412 308, Maharashtra, India. Tel: +91 772 001 8914 | Facsimile: N.A. | E-mail: info@arapl.co.in | Website: www.arapl.co.in
Contact Person: Ruchika Jitendrakumar Shinde, Company Secretary and Compliance Officer
Corporate Identification Number: L29299PN2010PLC135298

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre issue or post issue related matter. All grievances relating the ASBA process may be addressed the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSBs, giving full details such as name, address of the Applicant contact numbers, e-mail address of the sole/first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper applications as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgment slip.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For AFFORDABLE ROBOTIC & AUTOMATION LIMITED

Place: Pune
Date: March 20, 2024
Ruchika Jitendrakumar Shinde
Company Secretary and Compliance Officer

The LOF is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, the Lead Managers at www.saffronadvisor.com, www.phillipcapi.in and the website of the Registrar to the Issue at www.cameoindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled ‘Risk Factors’ beginning on page 22 of the ‘LOF’.

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been, and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the ‘US Securities Act’) or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, offered, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered directly or indirectly within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons (as defined in Regulations except for these purposes. U.S. Persons include persons who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of Rule 902(K)(1)(VIII)(B) or Rule 902(K)(2)(i), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlements and Rights Equity Shares were offered and sold (i) in offshore transactions outside the United States to non-U.S. Persons compliance with Regulations to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions, and (ii) in the United States to U.S. Persons who are U.S. QIBs and are also Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the US Securities Act and the Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Equity Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions.